

बनेगा ग्लास हाउस : मुख्य सचिवालय में कोल्ड ड्रिंक्स का होगा इंतजाम पटना, जागरण ब्यूरो : बाहर प्रचंड गर्मी हो और सचिवालय के किसी छोटे अधिकारी के कक्ष में भी अदब से कोई ठंडा पेश कर दे तो आप सुखद आश्चर्य में पड़ सकते हैं। फाइलों या कम्प्यूटर पर नजर गड़ाये बाबू की जुबान से निकले कि काम करते-करते मन थक गया है कुछ ठंडा हो जाये, तो आप सोच में पड़ सकते हैं। मगर अगले सप्ताह से सचिवालय में यह नजारा आम होगा। इंतजाम ऐसा है कि मन हो तो चाय, काफी, सूप भी ले सकते हैं। लंबे समय से सचिवालय न आये लोगों को यह सुनहरा सपना की तरह लग सकता है। मगर बदलते हुए दौर में यह सब साकार हो रहा है। गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव अजय कुमार चौधरी के साथ आपूर्तिकर्ताओं की ठंडा के मसले पर बात हुई। अगले सप्ताह फ्रिज के साथ ठंडे का इंतजाम हो जायेगा। बाद में स्नैक्स की भी व्यवस्था होगी। राजधानी में बहुत सारी निजी बड़ी कंपनियों के दफ्तर में भी यह सुविधा नहीं है। दरअसल सरकार सचिवालय को धीरे-धीरे कारपोरेट मोड में डाल रही है। मंशा है-सीमित मानव संसाधन से कैसे अधिकतम काम लिया जा सके? इसी को ध्यान में रखकर ग्लास हाउस का भी निर्माण किया जाना है। शीशे का पारदर्शी केबिन। थक गये हैं, ..कुछ ठंडा हो जाये

निजता नीति | सेवा की शर्तें | आपके सुझाव
 इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है
 कॉपीराइट © 2007 याहू वेब सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित
 कॉपीराइट / IP नीति